



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 21—अगस्त 27, 2010 (श्रावण 30, 1932)  
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 21—AUGUST 27, 2010 (SRAVANA 30, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

### [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली-110004, दिनांक 12 जुलाई 2010

सं. ए-36011/9/06-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री फौज अहमद किदवाई, भा.प्र.से. (एमपी : 96), को 12 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से 2 अगस्त, 2012 तक अथवा सह-आवधिक रूप में राष्ट्रपति के सेवाकाल तक अथवा आगामी आदेश तक, जो कोई भी पहले हो, राष्ट्रपति सचिवालय में, निदेशक के पद पर नियुक्त करती हैं।

जी. एस. पठानिया, अवर सचिव (प्रशासन)

दिनांक 29 जुलाई 2010

सं. ए-34011/4/06-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्रीमती रुबीना चौहान, सहायक, को 01 अगस्त 2010 के पूर्वाह्न से राष्ट्रपति सचिवालय में, अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करती हैं।

जी. एस. पठानिया, अवर सचिव (प्रशासन)

सं. ए-34011/4/06-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री के. एल. जग्गा, अनुभाग अधिकारी, को 01 अगस्त 2010 के पूर्वाह्न से राष्ट्रपति सचिवालय में, अवर सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

जी. एस. पठानिया, अवर सचिव (प्रशासन)

नई दिल्ली-110004, दिनांक 3 अगस्त 2010

सं. ए-39011/54/06-प्रशासन--श्री जी. एस. पठानिया, अवर सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय, 31 जुलाई, 2010 के अपराह्न से अधिवर्षिता अवधि के बाद सेवानिवृत्त हो गये हैं।

के. एल. जग्गा, अवर सचिव (प्रशासन)

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110101, दिनांक 30 जुलाई 2010

सं. ए-22012/1/2010-पीएमई--राष्ट्रपति, श्री राजीव टोपनो, भा.प्र. से. (गुजरात : 1996), जो वर्तमान में प्रधान मंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त हैं, को दिनांक 1 जुलाई, 2010 (पूर्वाह्न) से उनकी

केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि, जो दिनांक 28.06.2014 तक है, के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, निदेशक नियुक्त करती हैं।

कै. सलिल कुमार, अवर सचिव

दिनांक 2 अगस्त 2010

सं. ए-22017/1/2009-पीएमए--प्रधान मंत्री के वैयक्तिक स्टॉफ में प्रधान मंत्री की अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में नियुक्त श्रीमती तपस्या ओभराय नायर ने दिनांक 2 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न) से अपने पद का कार्य-भार छोड़ दिया है।

कै. सलिल कुमार, अवर सचिव

दिनांक 3 अगस्त 2010

सं. ए-22017/1/2009-पीएमए--राष्ट्रपति, श्रीमती तपस्या ओभराय नायर, डिप्टी कमाण्डेन्ट, सी.आई.एस.एफ. को दिनांक, 2 अगस्त, 2010 (अपराह्न) से प्रधान मंत्री के निजी स्टाफ में अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. प्रधान मंत्री के निजी स्टॉफ में श्रीमती तपस्या ओभराय नायर की नियुक्ति प्रधान मंत्री के कार्यकाल तक और उनके विवेकाधीन होगी।

कै. सलिल कुमार, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त 2010

सं. आरएस-42/2/2008/70-कार्मिक- इस सचिवालय में सहायक निदेशक डॉ. एस. शिवकुमार के 11 जून, 2010 से सहायक आयुक्त, भाषायी अल्पसंख्यक, चेन्नई, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के पद पर स्थायी आमेदन के परिणामस्वरूप उनके द्वारा धारित पुनर्ग्रहणाधिकार 11 जून, 2010 के पूर्वाह्न से समाप्त होता है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2010

सं. 1(9)/72-प्रशासन--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री सोमदत्त थपलियाल, अनुभाग अधिकारी, संसदीय कार्य मंत्रालय दिनांक 31.7.2010 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

यू. एस. चट्टोपाध्याय, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 2010

सं. एफ 6(2127)/2010-प्रशा.1-- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र सं. 26/03/2010-ईओ (एसएम-1) दिनांक 30 जून, 2010 के

अनुसरण में श्री नवीन कुमार, आईएस (बिहार : 75) ने शहरी विकास मंत्रालय में सचिव के रूप में नए पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु योजना आयोग में प्रधान सलाहकार के रूप में दिनांक 01 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से अपना कार्यभार त्याग दिया है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 13 जुलाई 2010

शुद्धिपत्र

सं. एफ.-(2135)/2010-प्रशा. II--12 जुलाई, 2010 की समसंख्यक अधिसूचना के पृष्ठांकन (क्र.सं.7) में उल्लिखित 'श्री अनिल कुमार' के नाम को 'श्री अरविंद कुमार चुब' पढ़ा जाए।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 19 जुलाई 2010

सं. एफ.-6(2129)/2010-प्रशा. I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08 अप्रैल 2010 के आदेश सं. 4/2/2010-सीएस-1 (डो) के तहत वर्ष 2009 की सीएसएस की चयन ग्रेड (उप सचिव) चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जी, श्री आर. एन. मिश्रा, सीएसएस को वेतन बैंड-3, 15,600--39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 7,600 रु. में योजना आयोग में दिनांक 12 अप्रैल, 2010 के पूर्वाह्न से उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इसे योजना आयोग की दिनांक 19 अप्रैल 2010 की समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक संशोधन के क्रम में जारी किया जाता है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 30 जुलाई 2010

सं. ए-12025/9/2009-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री कै. एन. पाठक उप सलाहकार (सामाजिक विकास) को योजना आयोग में पे बैंड-4 रुपये 37,400--67,000+8,700/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में संयुक्त सलाहकार (बहुस्तरीय योजना) के पद पर तदर्थ नियुक्ति दिनांक 23 जुलाई 2010 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष तक अथवा पद के नियमित रूप से भरे जाने तक, अगले आदेशों तक के लिए अथवा इनमें से जो भी पहले हो, करते हैं।

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह तदर्थ नियुक्ति उपर्युक्त अधिकारी को संयुक्त सलाहकार के पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता और न ही संयुक्त सलाहकार के पद पर उनकी इस तदर्थ नियुक्ति की अवधि को संयुक्त सलाहकार ग्रेड में वरीयता के लिए अथवा उच्च स्तर पर प्रोन्नति के लिए गिना जायेगा।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2010

सं. ए-20012/378/82-प्रशा. V/IV--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने के पश्चात् श्री श्रीकृत सिंह रावत, नियमित सहायक और अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे हैं, दिनांक 31 जुलाई 2010 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 26 जुलाई 2010

सं. ए-32013/1/2010-प्रशा. V/IV--राष्ट्रपति, योजना आयोग के श्री मंशाराम, नियमित सहायक (सीएसएस), को इस आयोग में रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 + ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में अनुभाग अधिकारी (सीएसएस) के रूप में कार्यभार देखने के लिए दिनांक 18 जून 2010 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर या नियमित अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ नियुक्ति, उक्त वर्णित अधिकारी के ग्रेड में नियमन हेतु कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी, न ही तदर्थ नियुक्ति ग्रेड में वरिष्ठता हेतु गिनी जाएगी।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2010

सं. ए-12025(i)/1/2007-प्रशा. I (वि. वि.)--श्री एन. आर. बट्ट, उप विधायी परामर्शी, जिन्हें तदर्थ आधार पर अपर विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-II) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को दिनांक 19 जुलाई, 2010 की अपराह्न से उप विधायी परामर्शी के पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

एम. आर. बीर, उप सचिव

दिनांक 27 जुलाई 2010

सं. ए-32014/1/2005-प्रशा. I (वि. वि.)--विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के सक्षम प्राधिकारी श्री बहादुर सिंह, सहायक (विधि) को अधीक्षक (विधि) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में दिनांक 27 जुलाई 2010 की पूर्वाह्न से छः माह की अवधि के लिए अथवा रिक्ति के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, रुपए 9,300--34,800/- के वेतन बैंड + रुपए 4,800/- के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें अधीक्षक (विधि) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के

प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

एम. आर. बीर, उप सचिव

दिनांक 28 जुलाई 2010

सं. ए-12025/1/2007-प्रशा. I (वि. वि.)--निम्नलिखित सहायक विधायी परामर्शियों को, जिन्हें विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) के पद पर तदर्थ आधार पर कार्य करने हेतु दिनांक 29 अप्रैल, 2010 की पूर्वाह्न से तीन माह की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था, दिनांक 28 जुलाई, 2010 की पूर्वाह्न से सहायक विधायी परामर्शी के पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है:--

1. श्री रामीसेट्टी श्रीनिवास
2. श्री रबिन्द्र कुमार पट्टनायक
3. श्री दिवाकर सिंह
4. श्री एम. वी. राव

एम. आर. बीर, उप सचिव

दिनांक 30 जुलाई 2010

सं. ए-12025/1/2007-प्रशा. -I (वि. वि.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के निम्नलिखित सहायक विधायी परामर्शियों को विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) के पद पर रुपए 15,600--39,100/- के वेतन बैंड + रुपए 7,600/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 30 जुलाई, 2010 की पूर्वाह्न से तीन माह की अवधि के लिए और अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

1. श्री रामीसेट्टी श्रीनिवास
2. श्री रबिन्द्र कुमार पट्टनायक
3. श्री दिवाकर सिंह
4. श्री एम. वी. राव

2. यह तदर्थ नियुक्ति उपर्युक्त अधिकारियों को उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

एम. आर. बीर, उप सचिव

दिनांक 3 अगस्त 2010

सं. ए-12026/7/2004-प्रशा. -I (वि. वि.)--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खंड में उप विधायी परामर्शी (हिन्दी) श्री रवि कुमार वर्मा

को विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के उक्त खंड में अपर विधायी परामर्शी (हिन्दी) के पद पर रुपए 37,400—67,000/- के वेतन बैंड + रुपए 8,700/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 03 अगस्त, 2010 की पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक नियमित आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. आर. बीर, उप सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 2010

सं. ए-32013/04/2006-प्रशा.-IV (वि. का.)-राष्ट्रपति, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की निजी सचिव सुश्री टेरेसा कुजूर को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.07.2010 के का. शा. सं. 20/31/2010-सी.एस.-II (ए) के अनुसरण में तथा उनके कार्यभार ग्रहण करने पर दिनांक 22.07.2010 के पूर्वाह्न से 31.12.2010 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में वेतन बैंड-3 (रुपए 15,600—39,100/-) में ग्रेड वेतन रु. 6,600/- सहित तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त प्रोन्नति दिनांक 31.12.2010 तक की अवधि के लिए और पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई है और इसके आधार पर सुश्री टेरेसा कुजूर को अनिश्चितकाल तक ग्रेड में बने रहने अथवा प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

आशा सोय, अवर सचिव

सं. ए-32013/06/2009-प्रशा.-IV (वि. का.)-राष्ट्रपति, विधि कार्य विभाग में नियमित वरिष्ठ अनुवादक श्री एन. एस. असवाल को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 25 जून, 2010 के आदेश सं. 5/5/2010-रा. भा. (सेवा) व दिनांक 26 जुलाई, 2010 के शुद्धिपत्र के अनुसरण में, दिनांक 26 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विधि कार्य विभाग में वेतन बैंड-3 (रु. 15,600—39,100/-) में ग्रेड वेतन रु. 5,400/- सहित तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (रा.भा.) के पद पर नियुक्त करते हैं।

आशा सोय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 अगस्त 2010

सं. ए-45012/1/2009-प्रशा.-III (वि.का.)-केन्द्रीय सरकार, भारत के भूतपूर्व अपर महासालिसिटर श्री अमरजीत सिंह को दिनांक 29 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से दिनांक 31 अगस्त, 2012 तक की अवधि के लिए अर्थात् भारत के 19वें विधि आयोग के कार्यकाल की समाप्ति तक भारत

के 19वें विधि आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के पद पर नियुक्त करती हैं।

एम. ए. खॉं यूसुफी, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

सं. ए-45012/1/2009-प्रशा.-III (वि.का.)-केन्द्रीय सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति शिव कुमार शर्मा को दिनांक 2 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न से दिनांक 31 अगस्त, 2012 तक की अवधि के लिए अर्थात् भारत के 19वें विधि आयोग के कार्यकाल की समाप्ति तक भारत के 19वें विधि आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के पद पर नियुक्त करती हैं।

एम. ए. खॉं यूसुफी, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

न्याय विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 27 जुलाई 2010

सं. के-13026/02/2010-यू.एस.-I-राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश, न्यायविद् श्री कृष्णमूर्ति कण्णन को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

सं. के-13022/01/2010-यू.एस.-II-राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती जया राय को, दिनांक 30 जुलाई, 2010 से एक वर्ष की अवधि के लिए, झारखंड उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

दिनांक 30 जुलाई 2010

सं. के-11017/8/2010-यू.एस.-II(iii)-राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करने के पश्चात्, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायविद् श्री जगदीश सिंह केहर को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 13 अगस्त, 2010 को या उससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

सं. के-11017/8/2010-यू.एस.-II(i)-राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करने के पश्चात्, कर्नाटक

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायविद् श्री पाल डेनियल दिनकरन प्रेमकुमार को सिविकम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 13 अगस्त, 2010 को या उससे पहले सिविकम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

-----

सं. के-11017/8/2010-यू.एस.-II(ii)--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करने के पश्चात्, सिविकम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायविद् श्री बारिन घोष को उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 13 अगस्त, 2010 को या उससे पहले उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय  
(अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय)

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 2010

सं. ए-38011/3/2010-अं.रा.प.--अधिवर्षिता की आयु पूर्ण होने पर, श्री अशोक कुमार शर्मा, उप सचिव (सी.एस.एस.), अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय, गृह मंत्रालय दिनांक 31 जुलाई, 2010 के अपराह्न से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

सुशील कुमार, अवर सचिव

संसदीय राजभाषा समिति

नई दिल्ली-110011, दिनांक 6 अगस्त 2010

सं. ए-20012/4/2010-समिति-6--राष्ट्रपति जी, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सहायक निदेशक, डॉ. लीला राम यादव को दिनांक 28.07.2010 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय में अवर सचिव के पद पर, पीबी-3, रुपये 15,600--39,100/- ग्रेड पे रुपये 6,600/- के वेतनमान पर प्रतिनियुक्त के आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रामनिवास शुक्ल, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2010

सं. 23012/05/2010-अ.भा.से.-III--सिविल सेवा परीक्षा 2007 के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त तथा उड़ीसा संवर्ग पर भारित सुश्री यामिनी माहना, आई. ए. एस. (ओ. आर. : 2008) को

नाम में यामिनी माहना से यामिनी सारंगी परिवर्तन करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार उन्हें सभी कार्यालयीय प्रयोजन के लिए श्रीमती यामिनी सारंगी जाना जाएगा।

शौकत अली, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 2010

सं. ए-32013/1/2010-प्रशासन-I--वर्ष 2009 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा (उप सचिव) की चयन ग्रेड की चयन सूची में उनको शामिल करने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति श्री के. पी. के. नामबिसन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में, उप सचिव के रूप में 7,600/- रु. ग्रेड पे सहित वेतन बैंड-3, 15,600--39,100/- रु. में, अगले आदेश होने तक 06 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से नियुक्त करती हैं।

हरीश चन्द्र, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त 2010

सं. 14015/06/2009-अ.भा.से.(1)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति चयन सूची वर्ष 2009 के दौरान राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अधीन गुजरात के भारतीय प्रशा. सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोटा रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत 09 अप्रैल, 2010 को तैयार की गई और विनियम 7(2) के अधीन 16 जून, 2010 को अनुमोदित की गई गुजरात संवर्ग के गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली चयन सूची को अधिसूचित करते हैं :-

चयन सूची 2009

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि
1.	श्री वी. सी. वर्मा	03.07.1955
2.	श्री के. बी. भट्ट	05.02.1955
3.	श्री जे. बी. बाबरिया	08.06.1956

2. उपर्युक्त चयन सूची में उपर्युक्त अधिकारियों का शामिल किया जाना माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक, बेंगलूर के समक्ष रिट याचिका सं. 39137/2009 एवं 32-34/2010 और 215-222/2010 और बैंच के परिणाम के अधधीन होगा।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

-----

सं. 14015/06/2009-अ.भा.से.(1)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के

साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति चयन सूची वर्ष 2009 के दौरान राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर गुजरात राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को परिवीक्षा पर अगले आदेश तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत उन्हें गुजरात कैडर आवंटित करते हैं:--

क्र. अधिकारी का नाम  
सं.

1. श्री बी. सी. वर्मा
2. श्री के. बी. भट्ट
3. श्री जे. बी. बाबरिया

2. उपर्युक्त चयन सूची में उपर्युक्त अधिकारियों का शामिल किया जाना माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक, बेंगलूर के समक्ष रिट याचिका सं. 39137/2009 एवं 32-34/2010 और 215-222/2010 और बैंच के परिणाम के अध्वधीन होगा।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

दिनांक 5 अगस्त 2010

सं. 14015/10/2008-अ.भा.से.(1)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति चयन सूची वर्ष 2006 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर झारखण्ड राज्य सिविल सेवा के सदस्य श्री विरेन्द्र कुमार सिंह 'मधुप' को परिवीक्षा पर अगले आदेश तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत उन्हें 'झारखण्ड' कैडर आवंटित करते हैं:--

2. उक्त अधिकारी की आई.ए.एस. में नियुक्ति निम्नलिखित कोर्ट केस के निर्णयों के अध्वधीन है:--

- (i) कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका सं. 1803-1806/2010(एस-कैट) के निर्णय के अध्वधीन।
- (ii) श्री दिलीप कुमार टोप्पो द्वारा रांची स्थित कोर्ट, सर्किट बैंच में दायर ओ.ए. सं. 303/2009 के अंतिम निर्णय के अध्वधीन।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

दिनांक 6 अगस्त 2010

सं. 14015/16/2009-अ.भा.से.(1)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के

साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति चयन सूची वर्ष 2008 और 2009 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत नागालैण्ड के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोटा रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत 06 मई 2010 को तैयार की गई और विनियम 7(2) के अधीन 6 जुलाई, 2010 को अनुमोदित की गई नागालैण्ड के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली चयन सूची को अधिसूचित करते हैं:--

चयन सूची 2008

क्र. अधिकारी का नाम सं.	जन्मतिथि
1. श्रीमती एन. हुशिली सेमा (अनु. जनजाति.)	17.11.1959
2. श्री बेडांग लोंगचैरी (अनु. जनजाति)	23.12.1955
3. श्री वाई.एल. जामी (अनु. जनजाति)	01.03.1955

चयन सूची 2009

क्र. अधिकारी का नाम सं.	जन्मतिथि
1. श्री बेंडांगकोक्वा (अनु. जनजाति)	22.12.1959
2. श्री रामोंग लोधा (अनु. जनजाति)	15.07.1957

2. उपर्युक्त चयन सूचियों में उक्त अधिकारियों का शामिल किया जाना बंगलौर स्थित माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक के समक्ष लंबित रिट याचिका सं. 39137/2009 (एस-कैट) (श्रीमती सावित्री एम.बी. बनाम यू.ओ.आई एवं अन्य), रिट याचिका सं. 1803 = 1806/2010 (एस-कैट) (भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग बनाम डॉ. पी. बोरेगौड़ा एवं अन्य) तथा सम्बद्ध रिट याचिकाओं के परिणाम के अध्वधीन है। जहां भारतीय प्रशासनिक सेवा पदोन्नति विनियमावली के विनियम 5(3) के प्रावधानों के बारे में मामला न्यायाधीन है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/16/2009-अ.भा.से.(1)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति चयन सूची वर्ष 2008 एवं 2009 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्त पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नागालैण्ड के राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को परिवीक्षा पर अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम

5(1) के अंतर्गत उन्हें नागालैण्ड के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में आवंटित करते हैं :—

चयन सूची 2008

क्र. सं.	अधिकारी का नाम
1.	श्रीमती एन. हुशिली सेमा (अनु. जनजाति.)
2.	श्री बेडांग लोंगचैरी (अनु. जनजाति)
3.	श्री वाई.एल. जामी (अनु. जनजाति)

चयन सूची 2009

क्र. सं.	अधिकारी का नाम
1.	श्री बेंडांगकोक्बा (अनु. जनजाति)
2.	श्री रामोंग लोधा (अनु. जनजाति)

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा में उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति बंगलौर स्थित माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक, जहां भारतीय प्रशासनिक सेवा पदोन्नति विनियमावली के विनियम 5(3) के प्रावधानों के बारे में मामला न्यायाधीन है, के समक्ष लंबित रिट याचिका सं. 39137/2009 (एस-कैट) (श्रीमती सावित्री एम.बी. बनाम यू.ओ.आई. एवं अन्य), रिट याचिका सं. 1803-1806/2010 (एस-कैट) (भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग बनाम डॉ. पी. बोरेगौड़ा एवं अन्य) तथा सम्बद्ध रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त 2010

सं. 13017/19/2010-अ.भा.से.(I)--केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा तमिलनाडु और उड़ीसा सरकारों की सहमति से सुश्री गुहा पूनम तपसकुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (टी.एन. : 08) को डॉ. सत्यजीत नायक, भारतीय प्रशासनिक सेवा (ओ. आर. : 2008) से उनका विवाह हो जाने के आधार पर तमिलनाडु संवर्ग से उड़ीसा संवर्ग में एतद्वारा स्थानान्तरित करती है।

आर. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. 13017/22/2010-अ.भा.से.(I)--केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा झारखण्ड और मध्य प्रदेश सरकारों की सहमति से श्री नन्द कुमारम, भारतीय प्रशासनिक सेवा (जे.एच. : 08) को सुश्री छवि भारद्वाज, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एम. पी. : 2008) से उनका विवाह हो जाने के आधार पर झारखंड संवर्ग से मध्य प्रदेश संवर्ग में एतद्वारा स्थानान्तरित करती है।

आर. के. गुप्ता, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई, 2010

शुद्धि-पत्र

आयकर संस्थापना

सं. 2010 का 7(फा. सं. ए-32012/02/2009-प्रशा. VI)--भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-2 दिनांक 8 दिसम्बर, 2009 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 7 तथा 8 में निम्नलिखित नाम, प्रविष्टियां निम्नतया प्रतिस्थापित की जाएंगी:—

1. अधिसूचना सं. 7 के क्रम सं. 48 के सामने सुश्री रिशपाल बेदी के स्थायीकरण की तारीख को "06/09/2006" पढ़ा जाए।

2. अधिसूचना सं. 7 के क्रम सं. 82 तथा अधिसूचना सं. 8 के क्रम सं. 182 के सामने पूजा राजवंशी के स्थान पर "पूजा राज" पढ़ा जाए।

3. अधिसूचना सं. 8 की क्रम सं. 35 के सामने अधिकारी का नाम "रूषा एन. श्रोटे" पढ़ा जाए।

पी. जी. कलाधरन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2010

भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) स्थापनाएं

सं. 28/2010 (फा.सं. ए-38012/18/2010-प्रशा. II)--राष्ट्रपति, सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत दिनांक 01.09.2010 (पूर्वाह्न) के प्रभाव से श्री आई. विक्रमण, अपर आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर की स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस को स्वीकृत करते हैं।

एस. के. देब, अवर सचिव

दिनांक 27 जुलाई 2010

सं. 29/2010 (फा.सं. ए-38012/09/2010-प्रशा. II)--राष्ट्रपति, सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत दिनांक 01.08.2010 (पूर्वाह्न) के प्रभाव से श्री के.आर. सुरेन्द्रन, उपायुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर की स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस को स्वीकृत करते हैं।

एस. के. देब, अवर सचिव

सं. 30/2010 (फा.सं. ए-38012/15/2010-प्रशा. II)--राष्ट्रपति, सी. सी. एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत दिनांक 01.09.2010 (पूर्वाह्न) के प्रभाव से श्री पी. वाई. डोडामणी,

उपायुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सूत-II की स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस को स्वीकृत करते हैं। यह श्री डोडामणी के विरुद्ध की जा रही और/अथवा की जाने वाली किसी विभागीय कार्रवाई अथवा अन्य कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह से रहित है।

एस. के. देब, अवर सचिव

#### आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2010

सं. ए-19011/14/2008-प्रशा. II--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में उप सचिव, श्री नरेश मोहन झा, (आईसीएस : 96) को 29 जुलाई, 2010 के पूर्वानु से उनके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अर्थात् 07.08.2013 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उनके लिए वैयक्तिक उपाय के रूप में इसी विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

दिनांक 30 जुलाई 2010

सं. ए-12011/07/2008-प्रशा. II--इस विभाग की दिनांक 19.10.2009, 10.12.2009 और 11.03.2010 की अधिसूचना सं. ए-12011/07/2008-प्रशा. II के क्रम में, राष्ट्रपति, वित्त संवर्ग के सीएसएसएस के निर्मांकित प्रधान निजी सचिवों की वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में उसी पद पर नियुक्ति को पूर्णतया तदर्थ आधार पर 31.12.2010 तक की आगे की अवधि के लिए अथवा नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :-

(i) श्रीमती सोसम्मा जे. अब्राहम

(ii) सुश्री सविन्दर पाल कौर

2. उपर्युक्त अधिकारियों की तदर्थ प्रोन्नति से उन्हें नियमित नियुक्ति या सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में अनिश्चितकाल के लिए बने रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण या अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए पात्रता हेतु नहीं की जाएगी और चयन सूची के अधिकारियों के उपलब्ध होने पर उन्हें प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

#### व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2010

सं. ए-12026/8/2010-प्रशा. I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित उप सचिव श्री एम. एम. चोपड़ा को 26 जुलाई, 2010 के पूर्वानु से अगले आदेशों तक वेतन बैंड (4) 37,400-67,000/- +

8,700/- रुपये (ग्रेड पे) में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) में नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त 2010

सं. ए-12026/4/2008-प्रशा. I--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी सहायकों की पूर्णतः तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति की अवधि को 31 दिसम्बर, 2010 या नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, इसमें से जो भी पहले हो और आगे बढ़ाते हैं :-

1. श्री डी. सी. केम
2. श्री शरद एन. हुलाले
3. श्रीमती उषा गिल
4. श्री नरेन्द्र प्रकाश
5. श्री प्रवीण चन्द्र शर्मा
6. श्रीमती विजय खरात
7. श्री सी. एम. कोछड़
8. श्री सुनील कुमार

2. उपर्युक्त अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति उनको नियमित नियुक्ति का दावा प्रदान नहीं करेगी और ग्रेड में अल्प अवधि के लिए उनके द्वारा की गई सेवा अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिनी जाएगी।

एस. कृष्णामूर्ति, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2010

सं. 13/2010 (फा. सं. 6/1843/89/एचआरडी-1/4436)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर इस कार्यालय में उप महानिदेशक विदेश व्यापार (के.स.से.), श्री राजेन्द्र पाल सिंह सरकारी सेवा से 31.7.2010 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

आर. एस. बिष्ट, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

फा. सं. 14/2010 (फा. सं. 6/2337/2004/एचआरडी-1/4451)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर इस कार्यालय में सांख्यिकी अधिकारी, श्री आर. एस. त्यागी 31.7.2010 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो जाएंगे।

आर. एस. बिष्ट, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार



सं. 15/2010 (फा. सं. 6/2129/97/एचआरडी-1/4467)--  
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर इस कार्यालय में पी एस  
(सीएसएसएस) श्रीमती संतोष आहूजा 31.07.2010 (अपराह्न) से  
सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो जाएंगी।

आर. एस. बिष्ट, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2010

सं. ए-32011/1/2004-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के  
दिनांक 26 मई, 2010 के आदेश सं. 5/3/2010-सीएस-1 (यू) के  
अनुसरण में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) (सीएसएल  
सं. 6360), के अनुभाग अधिकारी, श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, को दिनांक  
26.07.2010 (पूर्वाह्न) से 31.05.2011 तक अथवा अगले आदेश जारी  
होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए, रु. 15,600--39,100/- रुपये  
के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में सीएसएस के ग्रेड-1  
(अवर सचिव) के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करती हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति सर्वथा तदर्थ आधार पर है और उन्हें इस ग्रेड में  
अनिश्चितकाल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची  
में शामिल होने या ग्रेड-1 में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं  
होगा।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

दिनांक 3 अगस्त 2010

सं. ए-32011/1/2004-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के  
दिनांक 7 जनवरी, 2010 के का.ज्ञा. संख्या 5/8/2009-सीएस-1 (यू) के  
अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्री सुनील कुमार, अवर सचिव (तदर्थ आधार)  
(सीएसएल सं. 6066) को वेतन बैंड 15,600--39,100/- रुपये +  
6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में चयन सूची वर्ष 2008 के लिए सीएसएस  
के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करती हैं।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त 2010

सं. ए-32013/1/2010-स्था. --कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के  
26 जुलाई, 2010 के आदेश सं. 3/4/2010-सीएस-1 (डी) के अनुपालन  
में इस मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री एस. सी. भाटिया, चयन  
ग्रेड अधिकारी (उप सचिव) को 8,700/- रु. के ग्रेड वेतन के साथ वेतन  
ढांचा पीबी-4, 37,400--67,000/- रु. में कोयला मंत्रालय में चयन  
सूची 2010 के अनुसार सीएसएस के वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) में  
26 जुलाई, 2010 (अपराह्न) से नियुक्त किया जाता है।

आनन्द प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 6 अगस्त 2010

सं. 32014/1/2005-प्रशासन/स्थापना--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग  
के 07 जून, 2010 के का.ज्ञा. सं. 6/6/2009-सी.एस. I (एस) के  
अनुसरण में तथा इसमें उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अधधीन, राष्ट्रपति,  
कोयला मंत्रालय की सी.एस.एस. संवर्ग की चयन सूची 1995 के सहायक,  
श्री महेश चन्द को कोयला मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग के अनुभाग अधि  
कारी ग्रेड में 4,800/- रु. के ग्रेड वेतन के साथ 9,300--34,800/- रु.  
के वेतन संरचना पीबी-2 में 05 अगस्त, 2010 से 31 दिसम्बर, 2010  
तक अथवा नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक, इनमें से जो  
भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्ण रूप से तदर्थ आधार पर की जा रही है तथा  
इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के  
लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा सीएसएस के अनुभाग अधिकारी  
ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होगा। सरकार  
के पास किसी भी समय उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण  
बताए समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

आनन्द प्रकाश, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त 2010

सं. 18/9/3004-एसओ--राष्ट्रपति, श्री कल्याण गुप्ता, अधीक्षक,  
कोयला नियंत्रक संगठन, कोलकाता को 21.07.2010 (पूर्वाह्न) से  
अगले आदेशों तक 15,600--39,200/- रु. के वेतनमान तथा 5,400/-  
रु. की ग्रेड पे में उसी संगठन में स्थानापन्न उप सहायक कोयला नियंत्रक  
के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

शरद घोड़के, निदेशक

दिनांक 5 अगस्त 2010

इस मंत्रालय की 5 जनवरी 2010 की अधिसूचना सं.  
12/3/2009-एसओ का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति, श्री रजनीश  
कुमार महाजन, भा.प्र. सेवा (बिहार : 87) को 09.10.2009 (अपराह्न)  
से 23.06.2011 तक की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो  
भी पहले हो, के लिए कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव, भारत सरकार  
के रूप में नियुक्त करते हैं।

शरद घोड़के, निदेशक

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 2010

सं. ए-22011/9/2008-स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण  
विभाग के दिनांक 15 जुलाई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन  
20/31/2010-सीएस-II(ए) के अनुपालन में श्री आर. के. शर्मा, सूक्ष्म,  
लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा  
(सीएसएसएस) संवर्ग के नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ए और बी'

(विलयित) को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में दिनांक 16.07.2010 से 31.12.2010 तक अथवा नियमित आधार पर पद भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री शर्मा की पदोन्नति पूर्णतया से तदर्थ आधार पर है एवं उन्हें इस ग्रेड में बने रहने अथवा प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

पी. पी. मुरलीधरन, उप सचिव

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(जैवप्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 2 अगस्त 2010

सं. ए-12011/04/2009-स्था. 1--राष्ट्रपति, डॉ. संध्या आर. शेनोय को वेतन बैंड पीबी-3, 15,600--39,100/- रुपए + 7,600/- रु. के ग्रेड वेतन में इस विभाग में वैज्ञानिक 'डी' के पद पर 02 अगस्त, 2010 पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त करती हैं।

2. वह अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगी। परिवीक्षा की अवधि को नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

3. वह सी सी एस (आर पी) नियमावली, 2008 की प्रथम अनुसूची के खण्ड-II, भाग-क के अनुसार, वेतन बैंड पीबी-3 में रुपए 21,900/- के साथ रुपए 7,600/- का ग्रेड वेतन प्राप्त करेंगी।

बीना ई. चक्रवर्ती, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2010

सं. ए-12026/3/2006-ई.ए.--कृषि मूल्य एवं लागत आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में कार्यरत प्रो. एस. महेन्द्र देव को इन्दिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईपीआर), गोरगांव मुम्बई में निदेशक के पद पर नियुक्त होने के अनुसरण में 15 अगस्त, 2010 के अपराह्न से उन्हें आयोग में उनके वर्तमान दायित्वों से कार्यमुक्त किया जाता है।

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

सं. ए-12026/3/2006-ई.ए.--श्री आर. विश्वनाथन, सदस्य, (आधिकारिक), सीएसीपी को राष्ट्रपति 16 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न) से बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के छः माह की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, कृषि एवं सहकारिता विभाग के तहत कृषि मूल्य एवं लागत आयोग (सीएसीपी) के अध्यक्ष के पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपते हैं।

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2010

सं. 38013/05/2010-स्थापना-1--श्री विशाखा सिंह, अनुभाग अधिकारी, कृषि एवं सहकारिता विभाग अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर दिनांक 31 जुलाई, 2010 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 जून 2010

सं. 12-2/2009-प्रशासन-3--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति श्री बलबीर जेना को 29.06.2010 (पूर्वाह्न) से 15,600--39,100/- (पे बैंड-3) + 5,400/- (ग्रेड पे) रुपए के वेतनमान में केन्द्रीय पशुयुध पंजीकरण योजना, ऑगोल (आंध्र प्रदेश) में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। चूंकि वे 22 अगस्त, 1997 से केन्द्रीय सरकार के नियमित कर्मचारी हैं, अतः वे पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा प्रशासित पुरानी पेंशन योजना द्वारा नियंत्रित होंगे।

2. श्री बलबीर जेना केन्द्रीय पशुयुध पंजीकरण योजना, ऑगोल (आंध्र प्रदेश) में आहरण एवं वितरण अधिकारी के साथ-साथ कार्यालयाध्यक्ष के तौर पर भी कार्य करेंगे।

आर. एस. जयाल, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 2010

सं. ए-18011/1/2010-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्रीमती अनीता चौधरी, भा.प्र.से. (हरियाणा : 76) को 31 जुलाई, 2010 के अपराह्न से सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पद पर नियुक्त करते हैं।

अनूप कुमार, अवर सचिव

पेयजल तथा स्वच्छता विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 जुलाई 2010

सं. ए-23015/01/2010-प्रशा.--राष्ट्रपति जी, श्री सुजोय मजूमदार, भा.व.से. (1991) को दिनांक 12.07.2010 (पूर्वाह्न) से पेयजल तथा स्वच्छता विभाग में, निदेशक के पद पर पांच वर्षों अथवा अगले आदेशों, इसमें जो भी पहले हो, तक प्रतिनियुक्ति आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के. नारायण रेड्डी, अवर सचिव

## संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 जुलाई 2010

सं. 2(32)/76-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक 'जी', श्री वी. बी. तनेजा (कर्मचारी कोड सं. 115) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.07.2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

सं. 4(272)/83-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में प्रधान निजी सचिव, श्री कवल कुमार चड्ढा (कर्मचारी कोड सं. 301) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.07.2010 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

## राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 अगस्त 2010

सं. 2274/एनआईसी/2008-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, एतद्द्वारा श्रीमती नम्रता गुप्ता (कर्मचारी कोड सं. 2274) का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, मुख्यालय, नई दिल्ली में दिनांक 01 फरवरी 2000 से 30 मई 2008 तक की उनकी अनुपस्थिति की अवधि को अकार्य दिवस मानते हुए वैज्ञानिक "बी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 30 मई, 2008 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

सुभाष दत्ता, उप निदेशक (प्रशा. II)

दिनांक 6 अगस्त 2010

सं. 6278/एनआईसी/2010-प्रशा.-II--महानिदेशक राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्द्वारा श्री मोर्था सुदर्शन सैम, कर्मचारी कोड सं. 6278 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, गुजरात राज्य एकक, गांधीनगर में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड "एस बी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 28 जून, 2010 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

सुभाष दत्ता, उप निदेशक (प्रशा. II)

## डाक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 जुलाई 2010

सं. 1-1/2008-प्रशा.-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/3/2010-सीएस. I (यू) दिनांक 26 मई 2010 के क्रम में, राष्ट्रपति सहर्ष कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी श्री हरीश पोखरियाल को डाक विभाग में सहायक महानिदेशक [सीएसएस का ग्रेड-I (अवर

सचिव)] के तौर पर वेतन बैंड पीबी-3 के 15,600--39,100/- + 6,600/- रु. (ग्रेड वेतन) में पूर्णतः तदर्थ आधार पर दिनांक 25 जून 2010 (पूर्वा.) से दिनांक 31 मई, 2011 तक की अवधि अथवा जब तक इन पदों को नियमित आधार पर भरा नहीं जाता है, जो भी पहले हो, और अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

## 2. यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगी:-

i. यह तदर्थ नियुक्ति ग्रेड में अनियमित समय तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा सीएसएस के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं देगी।

ii. यह तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

iii. यदि अधिकारी ने अनिवार्य स्तर 'डी' प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है, जैसाकि सीएसएस के संवर्ग प्रशिक्षण योजना में दिया गया है, तो उसे छः माह की अवधि के अंदर यह प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

iv. यह तदर्थ पदोन्नति कैद, नई दिल्ली के समक्ष लंबित ओए सं. 3294/2009 श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत एवं ओए सं. 2674/2009 श्री पी. एस. भण्डारी बनाम भारत एवं अन्य के अंतिम निर्णय के अध्वधीन होगी।

भगवान दास, सहा. महानिदेशक (प्रशा.)

सं. 1-1/2008-प्रशा.-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/3/2010-सीएस. I (यू) दिनांक 26 मई 2010 के क्रम में, राष्ट्रपति सहर्ष दूरसंचार विभाग की अनुभाग अधिकारी सुश्री अल्का तिवारी को डाक विभाग में सहायक महानिदेशक [सीएसएस का ग्रेड-I (अवर सचिव)] के तौर पर वेतन बैंड पीबी-3 के 15,600--39,100/- + 6,600/- रु. (ग्रेड वेतन) में पूर्णतः तदर्थ आधार पर दिनांक 31 मई, 2010 (पूर्वा.) से दिनांक 31 मई, 2011 तक की अवधि अथवा जब तक इन पदों को नियमित आधार पर भरा नहीं जाता है, जो भी पहले हो, और अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

## 2. यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगी:-

i. यह तदर्थ नियुक्ति ग्रेड में अनियमित समय तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा सीएसएस के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं देगी।

ii. यह तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

iii. यदि अधिकारी ने अनिवार्य स्तर 'डी' प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है, जैसाकि सीएसएस के संवर्ग प्रशिक्षण योजना में दिया गया है, तो उसे छः माह की अवधि के अंदर यह प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

- iv. यह तदर्थ पदोन्नति कैट, नई दिल्ली के समक्ष लंबित ओए सं. 3294/2009 श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत एवं ओए सं. 2674/2009 श्री पी. एस. भण्डारी बनाम भारत एवं अन्य के अंतिम निर्णय के अध्वधीन होगी।

भगवान दास, सहा. महानिदेशक (प्रशा.)

सं. 1-1/2008-प्रशा.-1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/3/2010-सीएस.1 (यू) दिनांक 26 मई 2010 के क्रम में, राष्ट्रपति सहर्ष स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग के अनुभाग अधिकारी श्री पी. डी. खालखो को डाक विभाग में सहायक महानिदेशक [सीएसएस का ग्रेड-1 (अवर सचिव)] के तौर पर वेतन बैंड पीबी-3 के 15,600--39,100/- + 6,600/- रु. (ग्रेड वेतन) में पूर्णतः तदर्थ आधार पर दिनांक 28.06.2010 (पूर्वा.) से दिनांक 31 मई 2011 तक की अवधि अथवा जब तक इन पदों को नियमित आधार पर भरा नहीं जाता है, जो भी पहले हो, और अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगी:-

- यह तदर्थ नियुक्ति ग्रेड में अनियमित समय तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा सीएसएस के ग्रेड-1 में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं देगी।
- यह तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
- यदि अधिकारी ने अनिवार्य स्तर 'डी' प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है, जैसाकि सीएसएस के संवर्ग प्रशिक्षण योजना में दिया गया है, तो उसे छः माह की अवधि के अंदर यह प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
- यह तदर्थ पदोन्नति कैट, नई दिल्ली के समक्ष लंबित ओए सं. 3294/2009 श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत एवं ओए सं. 2674/2009 श्री पी. एस. भण्डारी बनाम भारत एवं अन्य के अंतिम निर्णय के अध्वधीन होगी।

भगवान दास, सहा. महानिदेशक (प्रशा.)

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 2010

सं. ए. 12025/01/2008-आर. एस. -राष्ट्रपति, भारतीय रेलवे के वरिष्ठ प्रशासकीय श्रेणी के अधिकारी श्री चेतन बक्शी (आई.आर.एस. ई.) को दिनांक 22 जुलाई, 2010 (पूर्वाह) से नागर विमानन मंत्रालय के अधीन रेल संरक्षा आयोग में रेल संरक्षा आयुक्त, वेतनमान रु. 67,000--79,000/-, के पद पर आमेलन के आधार पर उनके सेवानिवृत्ति तक या अगले आदेश तक, जो पहले घटित हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त अधिकारी कार्यभार संभालने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक परीवीक्षा पर रहेंगे।

ओमा नन्द, अवर सचिव

सं. ए-32013/01/2009-आर. एस.--राष्ट्रपति, श्री प्रशान्त कुमार, रेल संरक्षा आयुक्त, पश्चिम परिमण्डल, मुम्बई को रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ में वेतनमान रु. 75,500--80,000/- (एचएजी+) में मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त के पद पर दिनांक 01 अगस्त, 2010 (पूर्वाह) से उनके सेवानिवृत्ति तक या अगले आदेशों तक, जो पहले घटित हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

ओमा नन्द, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त 2010

शुद्धिपत्र

सं. ई(जी. पी.) 2007/3/3--इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मई 2009 में 2008--2009 के रेल कोच फैक्टरी के पैनल में लिखित श्री रघुवीर सिंह (अ.जा) के नाम को "राघवीर सिंह (अ.जा)" पढ़ा जाए।

वी. के. गुप्ता, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 9 अगस्त 2010

सं. ईआरबी-1/2007/10/4--श्री शिवाजी रक्षित, सचिव, रेलवे बोर्ड 29 जुलाई 2010 (पूर्वाह) से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. के. गुप्ता, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2007/10/4--श्री ए. के. चतुर्वेदी, अपर सदस्य (आईटी), रेलवे बोर्ड 29 जुलाई 2010 (अपराह) से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. के. गुप्ता, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2007/10/4--श्री पी. के. रैना, उप निदेशक, रेलवे बोर्ड 01 अगस्त 2010 (पूर्वाह) से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. के. गुप्ता, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2007/10/4--श्री रंजीत सिंह, संयुक्त निदेशक, रेलवे बोर्ड 01 अगस्त 2010 (पूर्वाह) से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. के. गुप्ता, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2007/10/4--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 जुलाई 2010 के (अपराह) से सेवानिवृत्त हो गए हैं :-

(i) श्री वी. के. दत्त	अपर सदस्य (बिजली)
(ii) श्री संसार चंद	निदेशक (राजभाषा)
(iii) श्री देवेन्द्र सिंह	संयुक्त निदेशक
(iv) श्री ओम प्रकाश	उप निदेशक
(v) श्री शिशु पाल	अनुभाग अधिकारी
(vi) श्रीमती नीलम कटारिया	निजी सचिव
वी. के. गुप्ता, सचिव (रेलवे बोर्ड)	

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 2010

सं. 13/02/2009 ईसी--राष्ट्रपति, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती आभा शुक्ला, आईएस, (महाराष्ट्र-93), निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय को दिनांक 12 जुलाई 2010 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए वेतन बैंड-4 (वेतन बैंड 37,400--67,000/- रुपये) में 8,700/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित प्रतिनियुक्ति के आधार पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली में सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. वासुदेवन, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 2010

सं. 11/2010 फा. सं. 5/3/2009 प्रशा.1--राष्ट्रपति, श्री जे. पी. जुनेजा, वरिष्ठ पी. पी. एस. को जल संसाधन मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग में नियमित आधार पर वेतन बैंड-4 [37,400--67,000/- + 8,700/- (जीपी)] में नए उन्नयन किए गए पद, प्रमुख स्टाफ अधिकारी के तौर पर 28 अक्टूबर 2009 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

यह दिनांक 19 मार्च 2010 की अधिसूचना संख्या 05/2010, फाइल सं. 5/3/2009 प्रशा. के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

एन. के. गुप्ता, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त 2010

सं. ए-22017/1/2007-प्रशा.1 (भाग)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 जुलाई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/4/2010-सीएस-1(डी) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा की वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) की वर्ष 2010 की चयन सूची में इस मंत्रालय में सीएसएस के चयन ग्रेड (उप सचिव) अधिकारी श्री आर. सी. शर्मा एवं श्री एन. वेणुगोपालन को शामिल किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 26 जुलाई 2010 (पूर्वाह्न) से उन्हें नियमित आधार पर निदेशक नियुक्त करते हैं।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2010

सं. ए-11016/3/2009-सीएसएस-II--राष्ट्रपति जी, श्री मंगल सिंह, पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, धनबाद-I को दिए गए पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय-II, धनबाद के पद का अतिरिक्त कार्यभार 01 जून 2010 से छः महीने की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाते हैं।

पी. के. ताम्रकार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 2010

सं. 247/2010 (फा. सं. एच-38013/1/2010-प्रशा.1)--अधिवर्षिता की आयु होने पर, श्रम और रोजगार मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी श्री पार्थ भट्टाचार्य 31 जुलाई 2010 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 12th July 2010

No. A-36011/9/06-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Faiz Ahmad Kidwai, IAS (MP:96) as Director in the President's Secretariat with effect from the forenoon of 12th July, 2010 and upto 02.08.2012 or for a period co-terminus with the tenure of the President or until further orders, whichever is earlier.

G. S. PATHANIA, Under Secy. (Admn.)

The 29th July 2010

No. A-34011/04/06-Admn.—The President is pleased to appoint Smt. Rubina Chauhan, Assistant, as Section Officer in the President's Secretariat with effect from the forenoon of 1st August, 2010.

G. S. PATHANIA, Under Secy. (Admn.)

No. A-34011/04/06-Admn.—The President is pleased to appoint Shri K. L. Jagga, Section Officer, as Under Secretary in the President's Secretariat with effect from the forenoon of 1st August, 2010.

G. S. PATHANIA, Under Secy. (Admn.)

New Delhi-110004, the 3rd August 2010

No. A-39011/54/06-Admn.—On attaining the age of superannuation, Shri G. S. Pathania, Under Secretary, President's Secretariat, retired from Govt. Service with effect from the afternoon of 31st July, 2010.

K. L. JAGGA, Under Secy. (Admn.)

## PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110101, the 30th July 2010

No. A-22012/1/2010-PME—The President is pleased to appoint Shri Rajeev Topno, IAS (GJ:96) presently appointed as Deputy Secretary in the Prime Minister's Office as Director with effect from the forenoon of 1st July, 2010, for the remaining period of his Central Deputation which would be upto 28.06.2014 or until further orders, whichever event occurs earlier.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

The 2nd August 2010

No. A-22017/1/2009-PMA—Smt. Tapasya Obhrai Nair, appointed as Additional Private Secretary to Prime Minister on the personal staff of the Prime Minister, has relinquished charge of the post with effect from the forenoon of 2nd August, 2010.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

The 3rd August 2010

No. A-22017/1/2009-PME—The President is pleased to appoint Smt. Tapasya Obhrai Nair, Deputy Commandant of Central Industrial Security Force, as Additional Private Secretary to the Prime Minister, with effect from the afternoon of 2nd August, 2010.

2. The appointment of Smt. Tapasya Obhrai Nair on the personal staff of Prime Minister is co-terminus with the tenure of and at the discretion of the Prime Minister.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 3rd August 2010

No. RS-42/2/2008/70-Perl.-I—Consequent upon his permanent absorption in the post of Assistant Commissioner for Linguistic Minorities, Chennai, Ministry of Minority Affairs w.e.f. 11th June 2010, the lien held by Dr. S. Sivakumar, Assistant Director in this Secretariat stands terminated w.e.f. the forenoon of 11th June, 2010.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

## MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 30th July 2010

No. 1(9)/72-Admn.—On attaining the age of superannuation, Shri Som Dutt Thapliyal, Section Officer, Ministry of Parliamentary Affairs retires from Government Services w.e.f. the afternoon of 31.07.2010.

U. S. CHATTOPADHYAY, Under Secy.

## PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 8th July 2010

No. F-6(2127)/2010-Adm.-I—In pursuance of Department of Personnel & Training Communication No. 26/03/2010-EO(SM-I) dated 30th June, 2010, Shri Navin Kumar, IAS (BH:75) has relinquished charge as Principal Adviser in the Planning Commission w.e.f. the forenoon of 1st July, 2010 to take up his new assignment as Secretary, Ministry of Urban Development.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 13th July 2010

## CORRIGENDUM

No. F-6(2135)/2010-Adm.-I—The name mentioned as 'Shri Anil Kumar' in the Endorsement (S.No. 7) of Notification of even number dated 12th July, 2010 may please be read as 'Shri Arvind Kumar Chugh'.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 19th July 2010

No. F-6(2129)/2010-Adm-I—Consequent upon his inclusion in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List of CSS for the year 2009 vide Dep'tt. of Personnel & Training's Order No. 4/2/2010-CS-I(D) dated 08.04.2010, the President is pleased to appoint Shri R. N. Mishra, CSS as Deputy Secretary in Planning Commission in Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- w.e.f. the forenoon of 12th April, 2010.

2. This issues in partial modification of Planning Commission's notification of even number dated 19.04.2010.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 30th July 2010

No. A-12025/9/2009-Adm.-I—The President is pleased to appoint Shri K. N. Pathak, Deputy Adviser (Social Development), Planning Commission as Joint Adviser (Multilevel Planning) in Pay Band-4, Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- on ad hoc basis for a period of one year w.e.f. 23.07.2010 or till the post in question is filled upon regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. It is made clear that the above said ad hoc appointment will not bestow on Shri Pathak any right to claim for regular appointment in the grade of Joint Adviser and also that any service rendered by him on ad hoc basis in the grade of Joint Adviser would neither count for the purposes of seniority in the grade of Joint Adviser nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

New Delhi, the 22nd July 2010

No. A-20012/378/82-Admn.-V/IV—On attaining the age of superannuation, Shri Shrikrit Singh Rawat, a regular Assistant and officiating as Section Officer on ad hoc basis, will retire from Government Service with effect from the afternoon of 31st July, 2010.

N. K. SHARMA, Under Secy.

The 26th July 2010

No. A-32013/1/2010-Admn.-V/IV—In supersession of Planning Commission Notification dated 14th July 2010, the President is pleased to appoint Shri Mansha Ram, a regular Assistant (CSS), Planning Commission to officiate as Section Officer (CSS) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- in this Commission, on ad hoc basis with effect from 18.06.2010 (FN) for the period upto 31.12.2010 or till regular Section Officer becomes available, whichever is earlier.

2. The ad hoc appointment will not confer upon the above mentioned officer any right for regularization in the grade of Section Officer nor will the ad hoc appointment count for seniority in the grade.

N. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 21st July 2010

No. A-12025(i)/1/2007-Admn.-I(L.D.)—Shri N. R. Battu, Deputy Legislative Counsel who was appointed to officiate as Additional Legislative Counsel (Grade-II of ILS) on ad hoc basis stands reverted to the post of Deputy Legislative Counsel with effect from the afternoon of 19th July, 2010.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

The 27th July 2010

No. A-32014/1/2005-Admn.-I(L.D.)—The Competent Authority in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice is pleased to appoint Shri Bahadur Singh, Assistant (Legal) to officiate as Superintendent (Legal) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice on ad hoc basis with effect from 27.07.2010 (F.N.) for a period of six months or till the vacancy is available, whichever is earlier.

2. This ad hoc appointment will neither bestow on him any claim whatsoever for regular appointment to the grade of Superintendent (Legal) nor the services so rendered by him will count for the purpose of seniority in the higher grade.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

The 28th July 2010

No. A-12025/1/2007-Admn.-I(L.D.)—The following Assistant Legislative Counsels who were appointed to the posts of Deputy Legislative Counsel (Grade-III of Indian Legal Service) on ad hoc basis in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice for a period of three months with effect from the forenoon of 29th April, 2010 stand reverted to their substantive posts of Assistant Legislative Counsel with effect from the afternoon of 28th July, 2010 :—

1. Shri Ramisetty Sreenivas
2. Shri Rabindra Kumar Pattanayak
3. Shri Diwakar Singh
4. Shri M. V. Rao

M. R. BEERH, Dy. Secy.

The 30th July 2010

No. A-12025/1/2007-Admn.-I(L.D.)—The President is pleased to appoint the following Assistant Legislative Counsels in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the posts of Deputy Legislative Counsel (Grade-III of Indian Legal Service) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- in the said Department of Ministry of Law and Justice on ad hoc basis for a period of three months with effect from the forenoon of 30th July, 2010 and until further orders, whichever is earlier :—

1. Shri Ramisetty Sreenivas
2. Shri Rabindra Kumar Pattanayak
3. Shri Diwakar Singh
4. Shri M. V. Rao

2. This ad hoc appointment will not bestow on the above mentioned officers any claim for regular appointments whatsoever to the grade of Deputy Legislative Counsel (Grade-III of ILS) nor the ad hoc services rendered by them will count for the purpose of seniority in the grade or for their promotion to the next higher grade.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

The 3rd August 2010

No. A-12026/7/2004-Admn.-I(L.D.)—On the basis of recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Shri Ravi Kumar Verma, Deputy Legislative Counsel (Hindi) in the Official Languages Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Additional Legislative Counsel (Hindi) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- in the said Wing of the Legislative Department of Ministry of Law and Justice on regular basis with effect from the forenoon of 3rd August, 2010 and until further orders.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

#### DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 2nd August 2010

No. A-32013/4/2006-Admn.-IV (LA)—Pursuant to the Department of Personnel & Training's O.M. No. 20/31/2010-CS-II(A) dated 15.07.2010 and consequent upon her joining, the President is pleased to appoint Ms. Teresa Kujur, Private Secretary of CSSS Cadre of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises as Principal Private Secretary on ad hoc basis in the PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the CSSS cadre of Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs w.e.f. 22.07.2010 (F/N) upto 31.12.2010 or till the post is filled upon regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The above said promotion is made purely on ad hoc basis for the period upto 31.12.2010 and will not confer any right on Ms. Teresa Kujur to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS.

ASHA SOTA, Under Secy.

No. A-32013/06/2009-Admn.-IV(LA)—In pursuance of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language Order No. 5/5/2010-OL(S) dated 25th June, 2010 and Corrigendum dated 26th July, 2010, the President is pleased to appoint Shri N. S. Aswal a regular Senior Hindi Translator to the post of Assistant Director (OL) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Department of Legal Affairs on ad hoc basis with effect from the forenoon of 26th July, 2010 for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

ASHA SOTA, Under Secy.

New Delhi, the 9th August 2010

No. A-45012/1/2009-Admn.-III(LA)—The Central Government is pleased to appoint Shri Amarjit Singh, Former Additional Solicitor General of India, as full time Member of the 19th Law Commission of India with effect from the forenoon of 29th July, 2010 for the period upto 31st August 2012, i.e. till the end of the term of the 19th Law Commission of India.

M. A. KHAN YUSUFI, Jt. Secy. & Legal Adviser

No. A-45012/1/2009-Admn.-III(LA)—The Central Government is pleased to appoint Justice Shri Shiv Kumar Sharma, retired Judge of Rajasthan High Court as full time Member of the 19th Law Commission of India with effect from the forenoon of 2nd August, 2010 for the period upto 31st August 2012, i.e. till the end of the term of the 19th Law Commission of India.

M. A. KHAN YUSUFI, Jt. Secy. & Legal Adviser

#### DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110011, the 27th July 2010

No. K-13026/02/2010-US-I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri K. Kannan, Additional Judge of the Punjab & Haryana High Court, to be a Judge of the Madras High Court, with effect from the date he assumes charge of his office.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.



No. K-13022/01/2010-US-II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shrimati Jaya Roy, to be an Additional Judge of the Jharkhand High Court, for a period of one year with effect from July 30, 2010.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

The 30th July 2010

No. K-11017/8/2010-US-II(iii)—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Jagdish Singh Khehar, Chief Justice of the Uttarakhand High Court as the Chief Justice of the Karnataka High Court and to direct him to assume charge of the office of the Chief Justice of the Karnataka High Court on or before 13th August, 2010.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

No. K-11017/8/2010-US-II(i)—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Paul Deniel Dinakaran Premkumar, Chief Justice of the Karnataka High Court as the Chief Justice of the Sikkim High Court and to direct him to assume charge of the office of the Chief Justice of the Sikkim High Court on or before 13th August, 2010.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

No. K-11017/8/2010-US-II(ii)—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Barin Ghosh, Chief Justice of the Sikkim High Court as the Chief Justice of the Uttarakhand High Court and to direct him to assume charge of the office of the Chief Justice of the Uttarakhand High Court on or before 13th August, 2010.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
(INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT)

New Delhi, the 2nd August 2010

No. A-38011/3/2010-ISC—On attaining the age of superannuation, Shri Ashok Kumar Sharma, Deputy Secretary (CSS), Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs stands superannuated from Govt. service with effect from the afternoon of 31st July, 2010.

SUSHIL KUMAR, Under Secy.

COMMITTEE OF PARLIAMENT ON OFFICIAL  
LANGUAGE

New Delhi-110011, the 6th August 2010

No. A-20012/4/2010-S-6—The President is pleased to appoint Dr. Leela Ram Yadav, Assistant Director, Central Secretariat Official Language Cadre to the post of Under Secretary in the Committee of Parliament on Official Language Secretariat on deputation basis in the pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- Grade Pay Rs. 6,600/- w.e.f. dated 28.07.2010 (forenoon) for a period of three years or till further orders.

RAM NIWAS SHUKLA, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES  
& PENSIONS  
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 30th July 2010

No. 23012/05/2010-AIS-III—Ms. Yamini Mahana, IAS (OR:2008) appointed to the Indian Administrative Service on the basis of the Civil Services Examination held in 2007 and borne on the cadre of Orissa, has been permitted to change her name from "Yamini Mahana" to "Yamini Sarangi". She will accordingly be recognised as Mrs. Yamini Sarangi for all official purposes.

SHAUKAT ALI, Under Secy.

New Delhi, the 2nd August 2010

No. A-32013/1/2010-Ad.-I—Consequent on his inclusion in the Select List of Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) of the year 2009, the President is pleased to appoint Shri K. P. K. Nambissan, as Deputy Secretary, in the Pay Band-3 i. e. Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 7,600/- (G.P.), in Department of Personnel & Training with effect from the forenoon of 6th July, 2010

HARISH CHANDER, Under Secy.

New Delhi, the 3rd August 2010

No. 14015/06/2009-AIS(I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Gujarat containing the following names prepared on 9th April, 2010 under Regulation 5(5) and approved on 16th June, 2010, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Gujarat under State Civil Service category determined by the Government

of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with State Government for the Select List year 2009 :—

## SELECT LIST 2009

Sl. No.	Name	Date of Birth
1.	Shri V. C. Verma	03.07.1955
2.	Shri K. B. Bhattach	05.02.1955
3.	Shri J. B. Babaria	08.06.1956

2. The inclusion of the above officers in the said Select List is subject to outcome of the WP No. 39137/2009 and 32-34/2010 & 215-222/2010 and batch pending before the Hon'ble High Court of Karnataka at Bangalore.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/06/2009-AIS(I)-B—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Gujarat to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2009 on probation until further orders and to allocate them to IAS Cadre of Gujarat, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Sl. No.

- |    |                     |
|----|---------------------|
| 1. | Shri V. C. Verma    |
| 2. | Shri K. B. Bhattach |
| 3. | Shri J. B. Babaria  |

2. The appointment of the above officers is subject to outcome of the WP No. 39137/2009 and 32-34/2010 & 215-222/2010 and batch pending before the Hon'ble High Court of Karnataka at Bangalore.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

The 5th August 2010

No. 14015/10/2008-AIS(I)-B—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the

President is pleased to appoint Shri Virendra Kumar Singh 'Madhup', a members of the State Civil Service of Jharkhand to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2006 on probation until further orders and to allocate them to IAS Cadre of Jharkhand, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

2. The appointment of the above officer to the IAS is subject to outcome of following Court Cases :—

- Subject to outcome of the Writ Petition Nos. 1803-1806/2010 (S-CAT) pending before the Hon'ble High Court of Karnataka.
- Subject to final outcome of the OA No. 303/2009 filed by Sh. Dilip Kumar Toppo in the CAT, Circuit Bench at Ranchi.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

The 6th August 2010

No. 14015/16/2009-AIS(I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select Lists of State Civil Service officers of Nagaland containing the following names prepared on 6th May, 2010 under Regulation 5(5) and approved on 6th July, 2010, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Nagaland under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List years 2008 and 2009 :—

## SELECT LIST 2008

Sl. No.	Name	Date of Birth
1.	Smt. N. Hushili Sema (ST)	17.11.1959
2.	Shri Bendang Longchari (ST)	23.12.1955
3.	Shri Y. L. Jami (ST)	01.03.1955

## SELECT LIST 2009

Sl. No.	Name	Date of Birth
1.	Shri Bendangkoka (ST)	22.12.1959
2.	Shri Ramongo Lotha (ST)	15.07.1957

2. The inclusion of the above officers in the aforementioned Select Lists is subject to outcome of the Writ Petition No. 39137/2009 (S-CAT) (Smt. Savithri MV

vs. UOI & Ors.), WP No. 1803-1806/2010 (S-CAT) (Government of India, DoPT vs. Dr. P. Boregowda & Ors.) and connected WPs pending before the Hon'ble High Court of Karnataka at Bangalore wherein the matter regarding the provisions of Reg. 5(3) of IAS Promotion Regulations is sub judice.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/16/2009-AIS(I)-B—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Nagaland to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List years 2008 and 2009 on probation until further orders and to allocate them to IAS Cadre of Nagaland, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

#### SELECT LIST 2008

Sl. Name  
No.

1. Smt. N. Hushili Sema (ST)
2. Shri Bendang Longchari (ST)
3. Shri Y. L. Jami (ST)

#### SELECT LIST 2009

Sl. Name  
No.

1. Shri Bendangkokba (ST)
2. Shri Ramongo Lotha (ST)

2. The appointment of the above officers to the IAS is subject to outcome of the Writ Petition No. 39137/2009 (S-CAT) (Smt. Savithri MV vs. UOI & Ors.), WP No. 1803-1806/2010 (S-CAT) (Government of India, DoPT vs. Dr. P. Boregowda & Ors.) and connected WPs pending before the Hon'ble High Court of Karnataka at Bangalore wherein the matter regarding the provisions of Reg. 5(3) of IAS Promotion Regulations is sub judice.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

New Delhi, the 5th August 2010

No. 13017/19/2010-AIS-I—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules 1954, and with the

concurrence of the Government of Tamil Nadu and Orissa the Central Government hereby transfers Ms. Guha Poonam Tapaskumar, IAS (TN:08) from Tamil Nadu cadre to Orissa cadre on the ground of marriage to Dr. Satyajit Naik, IPS (OR:2009).

R. K. GUPTA, Under Secy.

No. 13017/22/2010-AIS-I—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules 1954, and with the concurrence of the Government of Jharkhand and Madhya Pradesh the Central Government hereby transfers Shri Nand Kumar, IAS (JH:08) from Jharkhand cadre to Madhya Pradesh cadre on the ground of marriage to Ms. Chhavi Bhardwaj, IAS (MP:08).

R. K. GUPTA, Under Secy.

#### MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE) CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 28th July 2010

#### CORRIGENDUM

#### INCOME TAX ESTABLISHMENT

No. 7 of 2010 (F.No. A-32012/2/2009-Ad.-VI)—In the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, numbers 7 and 8 published in the Gazette of India in the Part-1, Section-2 dated the 8th December, 2009, the following names, entries shall be substituted as under :—

1. Against serial number 48 of the Notification No. 7, the date of confirmation of Ms. Rishpal Bedi may be read as "06.09.2006".
2. Against serial number 82 of the Notification No. 7, and serial number 182 of the Notification No. 8, the name of officer may be read as "PUJA RAJ", instead of PUJA RAJVANSI.
3. Against serial number 35 of the Notification No. 8, the name of the officer may be read as "USHA N. SHROTE".

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

New Delhi, the 26th July 2010

#### INDIAN REVENUE SERVICE (CUSTOMS & CENTRAL EXCISE) ESTABLISHMENTS

No. 28 of 2010 (F.No. A-38012/18/2010-Ad.-II)—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Shri I. Vikraman, Additional Commissioner of Customs and Central Excise, Nagpur with effect from

01.09.2010 (FN) under Rule 48 of the CCS (Pension) Rules, 1972.

S. K. DEB, Under Secy.

The 27th July 2010

No. 29 of 2010 (F.No. A-38012/09/2010-Ad.-II)—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Shri K. R. Surendren, Deputy Commissioner of Customs and Central Excise, Bhavnagar with effect from 01.08.2010 (FN) under Rule 48 of the CCS (Pension) Rules, 1972.

S. K. DEB, Under Secy.

No. 30 of 2010 (F.No. A-38012/15/2010-Ad.-II)—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Shri P. Y. Dodamani, Deputy Commissioner of Customs and Central Excise, Surat-II with effect from 01.09.2010 (FN) under Rule 48 of the CCS (Pension) Rules, 1972. This is without prejudice to any departmental action or other action being taken and/or to be taken against Shri Dodamani.

S. K. DEB, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 29th July 2010

No. A-19011/14/2008-Admn.-II—The President is pleased to appoint Shri Naresh Mohan Jha, (ICAS: 96), Deputy Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance as Director in the same Department as a measure personal to him with effect from the forenoon of 29th July, 2010 for the balance period of his tenure i.e. up to 07.08.2013 or until further orders, whichever event takes place earlier.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

The 30th July 2010

No. A-12011/07/2008-Admn.-II—In Continuation of this Department's notifications No. A-12011/7/2008-Admn.-II dated 19.10.2009, 10.12.2009 and 11.03.2010, the President is pleased to extend the appointment of the following Principal Private Secretaries of CSSS of Finance Cadre in the same capacity in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs purely on ad hoc basis for a further period upto 31.12.2010 or till regular Officers becomes available, whichever is earlier :—

(i) Smt. Sosamma J. Abraham

(ii) Ms. Savinder Pal Kaur

2. The ad hoc promotion of the above officer shall not confer on their any claim for regular appointment or the right to continue indefinitely in the grade of Principal Private Secretary of CSSS. The service rendered by the above officers on ad hoc basis will not count for the purpose of seniority in the grade or for eligibility for promotion to the next higher grade and they will be reverted as and when Select List officers become available.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 29th July 2010

No. A-12026/8/2010-Ad.-I—The President is pleased to appoint Shri M. M. Chopra, a regular Deputy Secretary of Central Secretariat Service to the Senior selection Grade (Director) of the Central Secretariat Service in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Pay Band (4) Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,700/- (Grade Pay) with effect from the forenoon of the 26th July, 2010 and until further orders.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

New Delhi, the 5th August 2010

No. A-12026/4/2008-Admn.-I—The President is pleased to extend the appointment of the following permanent Assistants of CSS Cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure to the post of Section Officer on purely ad hoc basis upto 31st December, 2010 or till regular incumbents become available, whichever is earlier :—

1. Shri D. C. Kaim
2. Shri Sharad N. Hulale
3. Smt. Usha Gill
4. Shri Narender Prakash
5. Shri Praveen Chander Sharma
6. Smt. Vijay Kharat
7. Shri C. M. Kochhar
8. Shri Sunil Kumar

2. The ad hoc promotion of the above officials will not bestow on them any claim for regular appointment and services rendered by them on short-term basis in the grade will not be counted for promotion in the next higher grade.

S. KRISHNAMOORTHY, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY  
(DEPARTMENT OF COMMERCE)  
DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 29th July 2010

No. 13/2010 (F.No. 6/1843/89/HRD-I/4436)—On attaining the age of superannuation Shri Rajinder Pal Singh, Dy. DGFT (CSS) in this Office will retire from Government service with effect from 31.07.2010 (AN).

R. S. BISHT, Dy. Dir. General  
of Foreign Trade

No. 14/2010 (F.No. 6/2337/2004/HRD-I/4451)—On attaining the age of superannuation Shri R. S. Tyagi, Statistical Officer in this Office will retire from Government service with effect from 31.07.2010 (AN).

R. S. BISHT, Dy. Dir. General  
of Foreign Trade

No. 15/2010 (F.No. 6/2129/97/HRD-I/4467)—On attaining the age of superannuation Smt. Santosh Ahuja, PS (CSSS) in this Office will retire from Government service with effect from 31.07.2010 (AN).

R. S. BISHT, Dy. Dir. General  
of Foreign Trade

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 28th July 2010

No. A-32011/1/2004-Estt.—In terms of Department of Personnel and Training's Order No. 5/3/2010-CS-I(U) dated 26.05.2010, the President is pleased to appoint Shri Jitendra Kumar Singh, a Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) (CSL No. 6360), as Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad hoc basis, in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. 26.07.2010 (FN) and till 31.05.2011 or until further orders whichever is earlier.

2. The above appointment is purely on ad basis and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

The 3rd August 2010

No. A-32011/1/2004-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/8/2009-CS-I(U) dated 7th January, 2010, the President is pleased to appoint Shri Sunil Kumar, Under Secretary (ad hoc) (CSL No. 6066) as Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Pay Band of

Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- for the Select List year 2008.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 3rd August 2010

No. A-32013/1/2010-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 3/4/2010-CS-I (D) dated 26th July, 2010, Shri S. C. Bhatia, Selection Grade Officer (Deputy Secretary) of the Central Secretariat Service in this Ministry is appointed to the Senior Selection Grade (Director) of CSS against Select List 2010, in the Ministry of Coal in the Pay Structure PB-4, Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/- w.e.f. 26th July, 2010 (AN).

ANAND PRAKASH, Under Secy.

The 6th August 2010

No. A-32014/1/2005-Admn./Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 6/6/2009-CS-I(S) dated 7th June, 2010 and subject to the terms and conditions mentioned therein, the President is pleased to appoint Shri Mahesh Chand, Assistant of Select List 1995 of CSS cadre of the Ministry of Coal to the Section Officers' Grade of the CSS cadre of the Ministry of Coal, in the Pay Structure PB-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 05.08.2010 upto 31.12.2010 or till regular Section Officers are made available, whichever is earlier.

2. The above appointment is being made purely on ad hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade of the CSS. The Government reserves the right to terminate the above ad hoc appointments at any point of time without giving any reason therefor.

ANAND PRAKASH, Under Secy.

New Delhi, the 3rd August 2010

No. 18/9/2004-ASO—The President is pleased to appoint Shri Kalyan Gupta, Superintendent, Coal Controller Organisation, Kolkata to Officiate as Deputy Assistant Coal Controller in that Organisation in the Scale of Pay of Rs. 15,600—39,200/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 21.07.2010 (FN) and until further orders.

SHARAD GHODKE, Dir.

The 5th August 2010

In suppression of this Ministry's Notification No. 12/3/2009-ASO dated 5th January, 2010, the President is pleased

to appoint Shri Rajneesh Kumar Mahajan, IAS (BH: 87) as Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Coal with effect from 09.10.2009 (AN) for the period upto 23.06.2011 or until further orders, whichever is earlier.

SHARAD GHODKE, Dir.

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

New Delhi, the 23rd July 2010

No. A-22011/9/2008-Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training's O. M. 20/31/2010-CS-II(A) dated 15th July, 2010, the President is pleased to appoint Shri R. K. Sharma, a regular Stenographer Grade 'A&B' (merged) of the CSSS cadre of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, as Principal Private Secretary on ad hoc basis with effect from 16.07.2010 in the CSSS cadre of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, till 31.12.2010 or till posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier.

The promotion of Shri Sharma is purely on ad hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or claim seniority in the grade of Principal Private Secretary.

P. P. MURALIDHARAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 2nd August 2010

No. A-12011/04/2009-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. Sandhya R. Shenoy, as Scientist 'D' in the Department, in the Pay Band PB-3 Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 7,600/- with effect from the forenoon of 2nd August, 2010.

2. She will be on probation for a period of two years from the date of joining. the period of probation may be curtailed or extended at the discretion of the appointing authority.

3. She will draw her pay in the Pay Band PB-3 at Rs. 21,900/- plus Rs. 7,600/- as Grade Pay as per Section-II Part-A of the First Schedule of the CCS (RP) Rules, 2008.

BEENA E. CHAKRAVERTY, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE  
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 30th July 2010

No. A-12026/3/2006-EA—Consequent upon his appointment to the post of Director, Indira Gandhi Institute of Development Research (IGIDR), Goregaon, Mumbai, Prof. S. Mahendra Dev, presently working as Chairman in

the Commission for Agricultural Costs and Prices, is hereby relieve from his present duties in the Commission with effect from the afternoon of 15th August, 2010.

A. K. ARORA, Under Secy.

No. A-12026/3/2006-EA—The President is pleased to entrust additional charge of the post of Chairman, Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) under the Department of Agriculture & Cooperation to Shri R. Viswanathan, Member (Official), CACP, without any extra remuneration with effect from 16th August, 2010 (Forenoon) for a period of six months or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

A. K. ARORA, Under Secy.

New Delhi, the 30th July 2010

No. 38013/05/2010-Estt.-I—Shri Vishakha Singh, Section Officer in the Department of Agriculture and Cooperation will retire from Government service with effect from the afternoon of 31st July, 2010 on attaining the age of superannuation.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY,  
DAIRYING & FISHERIES

New Delhi, the 29th June 2010

No. 12-2/2009-Admn.-III—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Balbeer Gena to the post of Assistant Registrar in Central Herd Registration Scheme, Ongole (AP), in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- (in PB-3) + Rs. 5,400/- (Pay Grade) under this Department w.e.f. 29.06.2010 (FN). By virtue of his being a regular Central Government employee since 22nd August, 1997 he shall be governed by the old pension scheme administered by Department of Pension & Pensioners' Welfare.

2. Shri Balbeer Gena will act as Drawing & Disbursing Officer as well as Head of Office in respect of Central Herd Registration Scheme, Ongole (AP).

R. S. JAYAL, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT  
(DEPARTMENT OF LAND RESOURCES)

New Delhi-110011, the 6th August 2010

No. A-18011/1/2010-Admn.—The President is pleased to appoint Smt. Anita Chaudhary, IAS (HY:76) as Secretary, Department of Land Resources, Ministry of Rural Development from the afternoon of 31st July, 2010.

ANOOP KUMAR, Under Secy.

## DEPARTMENT OF DRINKING WATER SUPPLY &amp; SANITATION

New Delhi-110003, the 14th July 2010

No. A-23015/01/2010-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Sujoy Majumdar IFS (1991) as Director in the Department of Drinking Water Supply & Sanitation, Ministry of Rural Development w.e.f. forenoon of 12.07.2010 on lateral basis for a period of five years or until further orders, whichever even takes place earlier.

K. NARAYANA REDDY, Under Secy. (Admn.)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 30th July 2010

No. 2(32)/76-Pers.-I—On attaining the age of superannuation, Shri V. B. Taneja, Scientist 'G' (Emp. Code No. 115) in the Department of Information Technology will stand retired from service with effect from afternoon of 31.07.2010.

R. K. MANCHANDA, Jt. Dir.

No. 4(272)/83-Pers.-I—On attaining the age of superannuation, Shri Kawal Kumar Chadha, Principal Private Secretary (Emp. Code No. 301), Department of Information Technology, Ministry of Communication & Information Technology retired from service on 31.07.2010.

R. K. MANCHANDA, Jt. Dir.

## NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 21st July 2010

No. 6278/NIC/2010-Adm.-II—Director General, NIC is pleased to accept the resignation of Sh. Mortha Sudarsan Sam (Emp. Code No. 6278), from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. 'SB', National Informatics Centre-Gujarat State Centre, Gandhinagar, with effect from the afternoon of 28.06.2010 and he is relieved of his duties from the same day.

SUBHASH DUTTA, Dy. Dir. (Adm.-II)

The 28th July 2010

No. 4474/NIC.2008-Adm.-II—The President is pleased to accept the resignation of Smt. Saraswati M. Desai, (Emp. Code No. 4474), from the post of Scientist 'B', National Informatics Centre - Karnataka State Unit, Bangalore, with effect from the afternoon of 28.03.2008 and she is relieved of her duties from the same day.

SUBHASH DUTTA, Dy. Dir. (Adm.-II)

## DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110001, the 19th July 2010

No. 1-1/2008-Admn.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 5/3/2010-CS-I(U) dated 26.05.2010, the President is pleased to appoint Shri Harish Pokhriyal, Section Officer in the Ministry of Corporate Affairs as Assistant Director General [Grade-I (Under Secretary) of CSS] in the Department of Posts in the Pay Band PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay) purely on ad hoc basis for a period upto 31.05.2011 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier, or until further orders, w.e.f. 25.06.2010 (F/N).

2. The ad hoc promotion is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of CSS.
- (ii) Ad- hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.
- (iii) The officer, if not, undergone mandatory Level 'D' Training as enjoined in cadre training plan for the CSS, will have to undergo the training withing a period of six months.
- (iv) The ad hoc promotion shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma vs. UOI and OA No. 2674/2009 titled Shri P. S. Bhandari vs. UOI & Ors. pending before the CAT, New Delhi.

BHAGWAN DAS, Asstt. Dir. Genral (Admn.)

No. 1-1/2008-Admn.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 5/3/2010-CS-I(U) dated 26.05.2010, the President is pleased to appoint Ms. Alka Tewari, Section Officer in the Department of Telecommunications as Assistant Director General [Grade-I (Under Secretary) of CSS] in the Department of Posts in the Pay Band PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay) purely on ad hoc basis for a period upto 31.05.2011 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier, or until further orders, w.e.f. 31.05.2010 (F/N).

2. The ad hoc promotion is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of CSS.
- (ii) Ad- hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.
- (iii) The officer, if not, undergone mandatory Level 'D' Training as enjoined in cadre training plan for the

CSS, will have to undergo the training within a period of six months.

- (iv) The ad hoc promotion shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma vs. UOI and OA No. 2674/2009 titled Shri P. S. Bhandari vs. UOI & Ors. pending before the CAT, New Delhi.

BHAGWAN DAS, Asstt. Dir. Genral (Admn.)

No. 1-1/2008-Admn.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 5/3/2010-CS-I(U) dated 26.05.2010, the President is pleased to appoint Shri P. D. Xalxo, Section Officer in the Department of Health & Family Welfare as Assistant Director General [Grade-I (Under Secretary) of CSS] in the Department of Posts in the Pay Band PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay) purely on ad hoc basis for a period upto 31.05.2011 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier, or until further orders, w.e.f. 28.06.2010 (F/N).

2. The ad hoc promotion is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of CSS.
- (ii) Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.
- (iii) The officer, if not, undergone mandatory Level 'D' Training as enjoined in cadre training plan for the CSS, will have to undergo the training within a period of six months.
- (iv) The ad hoc promotion shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma vs. UOI and OA No. 2674/2009 titled Shri P. S. Bhandari vs. UOI & Ors. pending before the CAT, New Delhi.

BHAGWAN DAS, Asstt. Dir. Genral (Admn.)

#### MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 6th August 2010

No. A-12025/01/08-RS—The President is pleased to appoint Shri Chetan Bakshi (IRSE), Senior Administrative Grade Officer of the Indian Railways as Commissioner of Railway Safety in the Pay Scale of Rs. 67,000—79,000/- in the Commission of Railway Safety under the Ministry of Civil Aviation on absorption basis with effect from 22nd July, 2010 (FN) till the superannuation of Shri Bakshi or until further orders, whichever is earlier.

2. The officer will be on probation for a period of one year from the date of assumption of charge.

OMA NAND, Under Secy.

No. A-32013/01/09-RS—The President is pleased to appoint Shri Prashant Kumar, Commissioner of Railway Safety, Western Circle, Mumbai to the post of Chief Commissioner of Railway Safety in the Commission of Railway Safety, Lucknow in the Pay Scale of Rs. 75,500—80,000/- (HAG+) with effect from 01.08.2010 (FN) till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

OMA NAND, Under Secy.

#### MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 3rd August 2010

#### CORRIGENDUM

No. E(GP)2007/3/3—In this Ministry's notification of even number dated 27.05.2009, the name of Shri Raghuveer Singh (SC) appearing in the panel for the year 2008-09 against RCF may be read as "Shri Raghbir Singh (SC)".

V. K. GUPTA, Secy.  
(Railway Board)

The 9th August 2010

No. ERB-I/2007/10/4—Shri Shivaji Rakshit, Secretary, Railway Board retired voluntarily from service w.e.f. 29.07.2010 (FN).

V. K. GUPTA, Secy.  
(Railway Board)

No. ERB-I/2007/10/4—Shri A. K. Chaturvedi, Additional Member (IT), Railway Board retired voluntarily from service w.e.f. 29.07.2010 (AN).

V. K. GUPTA, Secy.  
(Railway Board)

No. ERB-I/2007/10/4—Shri P. K. Raina, Deputy Director, Railway Board retired voluntarily from service w.e.f. 01.08.2010 (FN).

V. K. GUPTA, Secy.  
(Railway Board)

No. ERB-I/2007/10/4—Shri Ranjit Singh, Joint Director, Railway Board retired voluntarily from service w.e.f. 01.08.2010 (FN).

V. K. GUPTA, Secy.  
(Railway Board)

No. ERB-I/2007/10/4—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age



of superannuation with effect from the afternoon of 31.07.2010 :—

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| (i) Shri V. K. Dutt,       | Addl. Member (Elec)          |
| (ii) Shri Sansar Chand,    | Director (Official Language) |
| (iii) Shri Devendra Singh, | Joint Director               |
| (iv) Shri Om Prakash,      | Deputy Director              |
| (v) Shri Sishu Pal,        | Section Officer              |
| (vi) Smt. Neelam Kataria,  | Private Secretary            |

V. K. GUPTA, Secy.  
(Railway Board)

#### MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 3rd August 2010

No. 13/2/2009-EC—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 9 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the President is pleased to appoint Smt. Abha Shukla, IAS (MH-93), Director, Ministry of Civil Aviation, as Secretary in the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi in the PB-4 (Pay Band Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay Rs. 8,700/- on deputation basis for a period of three years with effect from 12.07.2010 or until further orders, whichever is earlier.

K. VASUDEVAN, Under Secy.

#### MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 2nd August 2010

No. 11/2010 (F. No. 5/3/2009-Admn.)—The President is pleased to appoint Shri J. P. Juneja, Sr. PPS, Principal Staff Officer, a newly upgraded post, in the Pay Band-4 [Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,700/- (GP)], on regular basis, in the CSSS cadre of the Ministry of Water resources, with effect from forenoon of 28.10.2009.

2. This issues in supersession of Notification No. 05/2010, File No. 5/3/2009-Admn. dated 19th March, 2010.

N. K. GUPAT, Under Secy.

#### MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 3rd August 2010

No. A-22017/1/2007-Adm.-I(Pt.)—Consequent upon their inclusion in the Senior Selection Grade (Director) Select List of CSS for the year 2010 by the Department of Personnel & Training vide Office Order No. 3/4/2010-CS-I(D) dated 26.07.2010, the President is pleased to appoint Shri R. C. Sharma and Shri N. Venugopalan, Selection Grade (Deputy Secretary) officers of CSS in this Ministry as Director on regular basis with effect from 26.07.2010 (FN).

JITENDER KUMAR, Under Secy. (Admn.)

#### MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 21st July 2010

No. A-11016/3/2009-CLS-II—The President is pleased to extend the additional charge of the post of Presiding Officer of the CGIT-cum-Labour Court-II, Dhanbad to Shri Hari Mangal Singh, Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court, Dhanbad-I for a period of six months w.e.f. 01.06.2010 or till the post is filled on regular basis or until further orders whichever is the earliest.

P. K. TAMRAKAR, Under Secy.

New Delhi, the 2nd August 2010

No. 247 of 2010 (F. No. A-38013/1/2010-Adm.-I)—On attaining the age of superannuation, Shri Partha Bhattacharya, Section Officer in the Ministry of Labour & Employment, has retired from Government service, with effect from 31.07.2010.

PRADEEP GAUR, Under Secy.